

मशरूम की खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

संस्थान में दिनांक 05-15 जनवरी, 2021 तक 'मशरूम की खेती' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रायोजन "Going to School (NGO)", पटना बिहार द्वारा किया गया जिसमें बी. एम. पी.-05 उच्च विद्यालय, पटना के नवम् एवं दशम वर्ग के 35 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरम्भ दिनांक 05 जनवरी, 2021 को हुआ तथा प्रतिदिन एक घंटे का प्रशिक्षण बच्चों को प्रदान किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन बच्चों को मशरूम के बारे में जानकारी (परिचय) दी गयी तथा व्यावहारिक तौर समेकित कृषि प्रणाली (आई.एफ.एस.) में मशरूम इकाई का भ्रमण करवाया गया। खाद्य के रूप में उपयोग किये जाने वाले मशरूम जैसे ऑयस्टर मशरूम (Oyster mushroom), दुधिया श्वेत मशरूम (Milky white mushroom) तथा बटन मशरूम (Button mushroom) को उगाने की विधि विस्तृत रूप से बताई गई।

इस संस्थान के निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार, डॉ. संजीव कुमार, डॉ. शिवानी एवं डॉ. अभिषेक दुबे ने बच्चों को ऑयस्टर मशरूम, दुधिया श्वेत मशरूम तथा बटन मशरूम का कम लागत में अधिक उत्पादन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया तथा स्पॉन बनाने का भी ज्ञान बच्चों में बाँटा गया। इस कार्यक्रम में चार सैद्धांतिक कक्षाएं (Theory classes) एवं छः व्यावहारिक कक्षाएं (Practical classes) चलायी गई। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक मशरूम के बैग बनाये एवं मशरूम की खेती के विषय में ज्ञान अर्जित किया। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन "Going to School (NGO)", पटना के श्री मुरारी, सुश्री अंजलि एवं यशिता तथा बी. एम. पी.-05 उच्च विद्यालय, पटना के शिक्षक श्री धनेश्वर सिंह एवं शिक्षिका श्रीमती प्रीति कुमारी आदि उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण का समापन दिनांक 15 जनवरी, 2021 को हुआ जिसमें बी. एम. पी.-05 उच्च विद्यालय, पटना की प्रधानाध्यापिका डॉ. प्रतिभा शर्मा भी सम्मिलित हुई तथा छात्र एवं छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किया गया।

